



अनुवाद अध्ययन विभाग, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वार्धा
 संशोधित समेकित समय-सारिणी : (सत्र : 2020-21)

(दिनांक 15/11/2021 से लागू)

दिन	कक्षा	09:30-10:30	10:30-11:30	11:30-12:30	12:30-01:30	01:30-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00
सोम.	स्नातक- I	चयनित भाषायुग्म में अनुवाद अभ्यास-1 (सामान्य पाठ) (जीतेन्द्र)	अनुवाद के साधन-उपकरण (श्री.कु.मि.)				अनुवाद (श्री.कु.मि.)		
	एम.ए. - III	मशीनी अनुवाद-I MATS(C)-303 (श्री.कु.मि.)	कोशविज्ञान एवं कोश निर्माण MATS(C)-301 (मी.नि.)	अनुवाद: प्रकार एवं क्षेत्र MATS(C)-302 (स.वी.)					
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा - I				अनुवाद सिद्धांत PGDT-102 (जीतेन्द्र)		अनुवाद चिंतन की परंपरा PGDT-101 (स.वी.)	मशीन अनुवाद PGDT-105 (श्री.कु.मि.)	अनुवाद व्याकरण PGDT-104 (जीतेन्द्र)
मंगल.	स्नातक- I	चयनित भाषायुग्म में अनुवाद अभ्यास-1 (सामान्य पाठ) (जीतेन्द्र)	अनुवाद के साधन-उपकरण (श्री.कु.मि.)				अनुवाद (श्री.कु.मि.)		
	एम.ए. - III	मशीनी अनुवाद-I MATS(C)-303 (श्री.कु.मि.)	कोशविज्ञान एवं कोश निर्माण MATS(C)-301 (मी.नि.)		अनुवाद व्याकरण PGDT-104 (जीतेन्द्र)				
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा - I						अनुवाद चिंतन की परंपरा PGDT-101 (स.वी.)	मशीन अनुवाद PGDT-105 (श्री.कु.मि.)	अनुवाद सिद्धांत PGDT-102 (जीतेन्द्र)
बुध.	स्नातक- I	अनुवाद विज्ञान का परिचय (जीतेन्द्र)	अनुवाद के साधन-उपकरण (स.वी.)				अनुवाद (श्री.कु.मि.)		
	एम.ए. - III	मशीनी अनुवाद-I MATS(C)-303 (श्री.कु.मि.)	कोशविज्ञान एवं कोश निर्माण MATS(C)-301 (मी.नि.)		अनुवाद समीक्षा एवं मूल्यांकन MATS(C)-304 (जीतेन्द्र)				
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा - I						अनुवाद चिंतन की परंपरा PGDT-101 (स.वी.)	मशीन अनुवाद PGDT-105 (श्री.कु.मि.)	भाषा एवं भाषा संरचना PGDT-103 (मी.नि.)
गुरु.	स्नातक- I	अनुवाद विज्ञान का परिचय (जीतेन्द्र)	अनुवाद के साधन-उपकरण (श्री.कु.मि.)				अनुवाद (श्री.कु.मि.)		
	एम.ए. - III	अनुवाद: प्रकार एवं क्षेत्र MATS(C)-302 (स.वी.)	कोशविज्ञान एवं कोश निर्माण MATS(C)-301 (मी.नि.)	मशीनी अनुवाद-I MATS(C)-303 (श्री.कु.मि.)	अनुवाद समीक्षा एवं मूल्यांकन MATS(C)-304 (जीतेन्द्र)				
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा - I						अनुवाद चिंतन की परंपरा PGDT-101 (स.वी.)	मशीन अनुवाद PGDT-105 (श्री.कु.मि.)	भाषा एवं भाषा संरचना PGDT-103 (मी.नि.)
शुक्र.	स्नातक- I	अनुवाद विज्ञान का परिचय (जीतेन्द्र)	चयनित भाषायुग्म में अनुवाद अभ्यास-1 (सामान्य पाठ) (श्री.कु.मि.)						
	एम.ए. - III	अनुवाद: प्रकार एवं क्षेत्र MATS(C)-302 (स.वी.)							
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा - I				अनुवाद समीक्षा एवं मूल्यांकन MATS(C)-304 (जीतेन्द्र)		अनुवाद सिद्धांत PGDT-102 (जीतेन्द्र)	अनुवाद व्याकरण PGDT-104 (जीतेन्द्र)	भाषा एवं भाषा संरचना PGDT-103 (मी.नि.)
शनि.	स्नातक- I	अनुवाद विज्ञान का परिचय (जीतेन्द्र)	चयनित भाषायुग्म में अनुवाद अभ्यास-1 (सामान्य पाठ) (श्री.कु.मि.)						
	एम.ए. - III	अनुवाद: प्रकार एवं क्षेत्र MATS(C)-302 (स.वी.)							

भोजनावकाश

स्नातकोत्तर डिप्लोमा – I				अनुवाद समीक्षा एवं मूल्यांकन MATS(C)-304 (मी.नि.)	अनुवाद सिद्धांत PGDT-102 (मी.नि.)	अनुवाद व्याकरण PGDT-104 (जीतेन्द्र)	भाषा एवं भाषा संरचना PGDT-103 (मी.नि.)
--------------------------	--	--	--	--	---	---	---

संकेताक्षर : श्री.कु.मि.- डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र, स.वी. - डॉ. सत्यवीर, मी.नि. - डॉ. मीरा निचळे, जीतेन्द्र.- डॉ. जीतेन्द्र


अध्यक्ष

अनुवाद अध्ययन विभाग

पाठ्यक्रम विवरण

स्नातक अनुवाद अध्ययन

1. अनुवाद विज्ञान का परिचय- स.वी. एवं जीतेन्द्र
2. चयनित भाषायुग्म में अनुवाद अभ्यास-I (सामान्य पाठ)- श्री.कु.मि. एवं जीतेन्द्र
3. अनुवाद के साधन-उपकरण- श्री.कु.मि.

ऐच्छिक पाठ्यचर्या

1. अनुवाद - श्री.कु.मि.

एम.ए. सेमेस्टर –III

- MATS(C)-301 : कोशविज्ञान एवं कोश निर्माण- मी.नि.
MATS(C)-302 : अनुवाद: प्रकार एवं क्षेत्र – स.वी.
MATS(C)-303 : मशीनी अनुवाद-I- श्री.कु.मि.
MATS(C)-304 : अनुवाद : समीक्षा एवं मूल्यांकन - जीतेन्द्र

स्नातकोत्तर डिप्लोमा – I

- PGDT-101 : अनुवाद चिंतन की परंपरा- स.वी.
PGDT-102 : अनुवाद सिद्धांत – मी.नि. एवं जीतेन्द्र
PGDT-103 : भाषा एवं भाषा संरचना - मी.नि.
PGDT-104 : अनुवाद व्याकरण – मी.नि. एवं जीतेन्द्र
PGDT-105 : मशीन अनुवाद- श्री.कु.मि.

टिप्पणी:

- समय-सारिणी दिनांक 15.11.2021 से लागू।
- प्रति क्रेडिट निर्धारित शिक्षण और ट्यूटोरियल कक्षाओं का निर्णय संबंधित शिक्षक (शिक्षकों) द्वारा किया जाएगा।
- प्रायोगिक कक्षाएँ संबंधित कालांश में उपलब्ध शिक्षकों/शोधार्थियों द्वारा ली जाएँगी।

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय, 2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय, 3. अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, 4. कुलसचिव कार्यालय (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), 5. संबंधित शिक्षक, 6. संबंधित विद्यार्थी, 7. संबंधित पत्रावली, 8. सूचना पट्ट